

पलामू टाइगर रज़िर्व

चर्चा में क्यों?

झारखंड के अधिकारी पलामू टाइगर रज़िर्व (PTR) के बाघ को वापस ला रहे हैं, जो झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भटक गया था।

मुख्य बटु

- **स्थानांतरण का प्रस्ताव:**
 - PTR अधिकारियों ने बाघ को स्थानांतरित करने के लिये एक प्रस्ताव तैयार कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को भेज दिया है।
 - मंजूरी मिलने पर बाघ को बेहोश कर PTR क्षेत्र में वापस लाया जाएगा।
 - स्थानांतरण प्रक्रिया की देखरेख के लिये दिल्ली स्थिति वन्यजीव संस्थान की एक टीम मौजूद रहेगी।
- **गाँवों के लिये खतरा:**
 - PTR छोड़ने के बाद से बाघ ने मवेशियों का शिकार करके जमशेदपुर और पुरुलिया में ग्रामीणों को आतंकित कर दिया है।
 - बाघ की मौजूदगी से दलमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 86 गाँवों के निवासियों में भय व्याप्त हो गया है।
- **चुनौतियाँ एवं चर्चाएँ:**
 - यह बाघ फलिहाल दलमा वन्यजीव अभयारण्य में फँसा हुआ है और भूख से मर रहा है तथा जंगल में रास्ता खोजने के लिये संघर्ष कर रहा है।
 - क्षेत्र का पहाड़ी इलाका और घनी मानव आबादी स्थिति को और अधिक जटिल बना देती है।
 - वंशजों को डर है कि लंबे समय तक एकांतवास और भोजन की कमी के कारण बाघ अवसादग्रस्त हो सकता है, जिसके कारण वन विभाग को उसके स्वास्थ्य के लिये कदम उठाने होंगे।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण(NTCA)

- NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (जैसा कि 2006 में संशोधित किया गया) के प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण को मज़बूत करने के लिये, इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार किया गया था।

दलमा वन्यजीव अभयारण्य

- जमशेदपुर में स्थिति दलमा वन्यजीव अभयारण्य (आश्रय) हाथियों के लिये प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में भौंकने वाले हरिण, सुस्त भालू और विभिन्न सरीसृप प्रजातियाँ उल्लेखनीय हैं।
- 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह वन्यजीव अभयारण्य सुवर्णरेखा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थिति है।
- यहाँ मुख्य रूप से शुष्क मशरति पर्णपाती वन हैं, जिनमें कुछ शुष्क प्रायद्वीपीय साल भी हैं। यहाँ की मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ मैरमनिलिया, जामुन, धौरा, कंदू, करम आदि शामिल हैं।
- पारस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है।

पलामू टाइगर रज़िर्व (PTR)

- पलामू टाइगर रज़िर्व की स्थापना वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी।
- यह विश्व का पहला ऐसा अभयारण्य है, जहाँ पदचिह्नों के आधार पर बाघों की गणना की गई।
- 'बेतला राष्ट्रीय उद्यान' झारखंड के लातेहार ज़िले में 1130 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैले पलामू टाइगर रज़िर्व के भीतर 226.32 वर्ग

कलिमीटर में स्थति है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/palamu-tiger-reserve-1>

